

जातीय समानता को बढ़ावा देने के मौजूदा और योजनाबद्ध उपाय

हांगकांग ऑब्जर्वेटरी (वेधशाला)

हांगकांग ऑब्जर्वेटरी (HKO) का लक्ष्य आम जनता की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ शिपिंग और विमानन क्षेत्रों सहित अन्य विशेष उपयोगकर्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाली मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं प्रदान करना है। HKO जनता के सभी सदस्यों द्वारा हमारी सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने को बहुत महत्व देता है, चाहे उनकी जातीय पृष्ठभूमि कुछ भी हो।

संबंधित
सेवाएं

- HKO निम्न के लिए जिम्मेदार है (a) मौसम का पूर्वानुमान प्रदान करना और जोखिम वाले मौसम पर चेतावनी जारी करना ; (b) हांगकांग में पर्यावरण विकिरण के स्तर के बारे में जानकारी प्रदान करना ; और (c) हांगकांग समय मानक को बनाए रखना और भूभौतिकीय, समुद्र विज्ञान, खगोलीय और जलवायु संबंधी जानकारी प्रदान करना।

मौजूदा
उपाय

HKO की मौसम संबंधी चेतावनी और सेवाओं के बारे में जानकारी हांगकांग की दो आधिकारिक भाषाओं (यानी कि चीनी और अंग्रेजी) में HKO की वेबसाइट पर उपलब्ध है। विभिन्न भाषाओं¹ में मौसम की बुनियादी जानकारी प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत मौसम वेबसाइट भी शुरू की गई हैं।

- आम जनता में वितरण के लिए सूचनात्मक और शैक्षिक पत्रक/ पुस्तिकाएं भी दोनों आधिकारिक भाषाओं में प्रकाशित की जाती हैं। इसके इलावा, HKO ने मौसम की चेतावनियों के बारे में तीन पत्रकों ([“हांगकांग के उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी संकेत”](#)² , [“अधीवर्षा की चेतावनी प्रणाली”](#)³) और [“जोरदार मौनसून संकेत”](#)⁴) का अनुवाद

1. भाषाओं में हिंदी, नेपाली, उर्दू, थाई, बहासा इंडोनेशिया, तागालोग, पंजाबी और वियतनामी शामिल हैं।

2. प्रकाशन संख्या 33

3. प्रकाशन संख्या 20

4. प्रकाशन संख्या 35

विभिन्न भाषाओं¹ में किया है जो HKO की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं।

भविष्य के काम
का आकलन

- HKO समय-समय पर, विविध जातीयों के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारी सेवाओं की समीक्षा करेगा।

लिए गए /
लिए जाने वाले
अतिरिक्त उपाय

- HKO आने वाले वर्षों में विभिन्न जातीय भाषाओं में और अधिक मौसम चेतावनी पत्रक / पुस्तिकाएं प्रदान करेगा।
- HKO आवश्यकतानुसार विविध जातीयों के लोगों के लिए शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करेगा, जैसे कि HKO का दौरा।

पूछताछ के लिए, कृपया श्री सानो वाईआईयू, सहायक विभागीय सचिव (जनरल) 2 से निम्नलिखित के माध्यम से संपर्क करें: -

टेलीफोन : 2926 8039
फैक्स : 2311 9448
ईमेल : mailbox@hko.gov.hk
डाक : Hong Kong Observatory
134A Nathan Road
Kowloon
Hong Kong

द हांगकांग ऑब्जर्वेटरी
जून 2021